



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

1 आश्विन 1936 (श0)  
(सं0 पटना 782) पटना, मंगलवार, 23 सितम्बर 2014

---

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग  
(निबंधन)

अधिसूचनाएं

18 सितम्बर 2014

सं0 IV/स्था. (अरा.)एम<sup>1</sup>-516/2010-4075—भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल “बिहार रजिस्ट्रीकरण लिपिक संवर्ग नियमावली, 2004” का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं: —

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**— (1) यह नियमावली “बिहार रजिस्ट्रीकरण लिपिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2014” कही जा सकेगी।
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
  - (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. उक्त नियमावली, 2004 का नियम-4(ख), नियम-8, इसके परन्तुक को छोड़कर एवं नियम-14 क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—

“(I) निम्नवर्गीय लिपिक का 85% पद सीधी भर्ती से भरा जायेगा और 15% पद निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता रखने वाले सुपात्र समूह “घ” कर्मचारियों (क्षेत्रीय निबंधन कार्यालयों में कार्यरत) में से वरीयता के आधार पर प्रोन्नति के द्वारा भरा जायेगा। समूह “घ” कर्मचारियों की प्रोन्नति पर विचार निबंधन महानिरीक्षक की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की जायेगी।

सीधी भर्ती के 85% पदों में से 10% पद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेगा।

(II) सभी सीधी भर्तियाँ आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में की जायेगी।”
3. उक्त नियमावली, 2004 का नियम-10 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा: —

“10— नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी। जिसमें हिन्दी टंकण न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी न्यूनतम टंकण गति 40 शब्द प्रति मिनट अनिवार्य होगा।”

4. उक्त नियमावली, 2004 के नियम-15 के खण्ड (iii) के बाद निम्नलिखित खण्ड (iv) जोड़ा जाएगा: —

“ (iv) तृतीय प्रोन्नति का पद — कार्यालय अधीक्षक।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

**संजय कुमार सिंह,**

सरकार के सचिव।

18 सितम्बर 2014

सं० IV/स्था. (अरा.)एम<sup>1</sup>-516/2010-4075—उपर्युक्त अधिसूचना का संलग्न अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

**संजय कुमार सिंह,**

सरकार के सचिव।

*The 18th September 2014*

No. IV/Satha.(Ara.)M<sup>1</sup>-516/2010-4075—In exercise of the power conferred by proviso of Article 309 of the constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend to The Bihar Registration clerk grade Rules, 2004: -

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) These Rules shall be called, “Bihar Registration of clerk grade (Amendment) Rules, 2014”.
  - (2) It shall extend to the whole State of Bihar.
  - (3) It shall come into force at once.
2. Rule-4(b), Rule-8 except its proviso and Rule-14 of the said Rules, 2004 shall be substituted by following respectively:-
  - (I) 85% posts, of lower Division clerk shall be filled up by direct recruitment and 15% posts, shall be filled up by promotion from among the eligible employees of group “D” (working in the field Registration offices) having qualifications for the appointment to the post of Lower Division clerk on the basis of seniority. Promotion of group “D” employees shall be considered by the Departmental Promotion Committee, constituted under The Chairmanship of The Inspector General of Registration.
 

10% posts out of 85% posts of direct recruitment shall remain reserved for the appointment on the Compassionate ground, from among the total 85% post of direct appointment.
  - (II) All direct appointment, will be made in the category of the lower Division clerk on the recommendation of the Commission.
3. Rule-10 of said Rules 2004 shall be substituted by following:-
 

“10- The minimum educational qualification for appointment shall be Intermediate (10+2) passed or equivalent with knowledge of computer operation, computer

typing in which 30 words per minute in Hindi typing and 40 words per minute in English typing speed shall be compulsory.”

4. The following clause (iv) shall be added after clause (iii) of Rule 15 of the said Rules, 2004:-

“(iv) Third promotional post-Office Superintendant.”

By order of the Governor of Bihar,

**SANJAY KUMAR SINGH,**

*Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 782-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>